

उत्तराखण्ड शासन  
नागरिक उड्डयन विभाग  
संख्या- / IX / 2018-13(10) / 2017  
देहरादून दिनांक 19 फरवरी, 2018

कार्यालय ज्ञाप

15वें वित्त आयोग का भैमोरण्डन तैयार किये जाने हेतु वांछित सूचनायें एवं समय-समय पर भारत सरकार द्वारा सम्भावित सूचनाओं को उपलब्ध कराने वि०आ०/2017-18 दिनांक 18 दिसम्बर, 2017 के क्रम में शासन स्तर से एवं उत्तराखण्ड नागरिक उड्डयन विकास प्राधिकरण से निम्नवत् अधिकारियों को नोडल अधिकारी नामित किया जाता है:-

1- श्री गिरीश चन्द्र जोशी,  
उप सचिव,  
नागरिक उड्डयन विभाग उत्तराखण्ड शासन।  
मोबाइल नं.- 9927699402

2- श्री शैलेन्द्र शंकर सिंह,  
वित्त नियंत्रक,  
उत्तराखण्ड नागरिक उड्डयन विकास  
प्राधिकरण देहरादून।  
मोबाइल नं. - 9412990505

2- उपरोक्त नोडल अधिकारियों को यह भी निर्देशित किया जाता है कि भविष्य में 15वें वित्त आयोग का भैमोरण्डन तैयार किये जाने हेतु वांछित सूचनायें एवं समय-समय पर भारत सरकार द्वारा सम्भावित सूचनाओं को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

(डॉ० आर०राजेश कुमार)  
अपर सचिव।

संख्या- 663 (1) / IX / 2018-13(10) / 2017 तददिनांकित।

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं अवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रमुख निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव, नागरिक उड्डयन विभाग को सूचनार्थ।
2. प्रमुख निजी सचिव, प्रमुख सचिव वित्त को प्रमुख सचिव महोदय के सूचनार्थ।
3. निजी सचिव, अपर सचिव, नागरिक उड्डयन विभाग को अपर सचिव महोदय के संज्ञानार्थ।
4. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उत्तराखण्ड नागरिक उड्डयन विकास प्राधिकरण सहस्रधारा रोड़ देहरादून।
5. सम्बन्धित अधिकारी।
6. गार्ड फाईल।

(चिरंजी लाल)  
अनु सचिव।